
Contents

● Previous Years' Solved Papers

Part-I

● English	1-48
1. Comprehension	3-12
2. Use of degree of Comparison	13-14
3. Modal Auxiliaries	15-17
4. Prepositions	18-22
5. Spellings	23-26
6. Rearrange of Jumbled Words & Verb Patterns	27-30
7. Reported Speech	31-39
8. Tense Forms	40-42
9. Sentence Structure	43-48

Part-II

● Hindi	1-48
1. वर्ण उच्चारण और वर्तनी विवेक	3-7
2. व्याकरण	8-21
1. अशुद्धि शोधन	
(i) अशुद्धि शोधन (वर्तनी की अशुद्धियों को शुद्ध करना)	8
(ii) वाक्य शोधन (वाक्य की अशुद्धियों को शुद्ध करना)	10
2. शब्द विचार	
(i) पर्यायवाची शब्द	12
(ii) विलोम शब्द	14
3. व्याकरणिक कोटियाँ	17
(संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया-विशेषण)	
3. शब्द बोध एवं वाक्य रूपान्तरण	22-27
4. मुहावरे और लोकोक्तियाँ	28-36
5. अपठित बोध (गद्य)	37-48

Part-III

● Mathematics	1–80
1. Square and Square Root	3–11
2. Cube and Cube Root	12–16
3. Index and Surd	17–20
4. Algebraic Expression	21–25
5. Division of Algebraic Expression	26–29
6. Equation of One Unknown	30–35
7. Compound Interest	36–42
8. Rational Numbers	43–45
9. Percentage	46–49
10. Profit and Loss	50–52
11. Discount	53–55
12. Simple Interest	56–58
13. Ratio and Proportion	59–61
14. Data Handling	62–64
15. Area of Rectilinear Figures	65–69
16. Circumference and Area of a Circle	70–74
17. Volumes and Surface Areas of Solid Figures	75–80

Part-IV

● Social Science	1–80
History	1–30
Objective Type Questions	7
Answers with Hints	28
Geography	31–53
Objective Type Questions	36
Answers with Hints	52
Civics	54–80
Objective Type Questions	58
Answers with Hints	78

Part-V

● General Science	1-48
– Food : Crop Production and Management, Microorganism : Food Preservation	3-7
– Material I—Synthetic Fibres; Plastics; Metals and Non-Metals	8-12
– Material II—Coal and Petroleum; Refining of Petroleum; Fossil Fuels; Combustion and Flame	13-17
– Living/Non-Living; Cell Structure and Function; Conservation of Plants and Animals—Wild Life Sanctuary and National Parks	18-22
– Reproduction—Asexual and Sexual Reproduction; Adolescence	23-26
– Force : Frictional Force and Gravitational Force; Thrust and Pressure	27-30
– Light	31-36
– Chemical Effects of Electric Current, Conduction of Electricity Through Liquids Electrolytes Electroplating	37-39
– Natural Phenomena—Lighting : Earthquakes, Pollution of Air and Water	40-43
– Solar System, Stars and Constellations	44-47